

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2013/कार्तिक 23, 1935

No. 262]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2013/KARTIKA 23, 1935

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवंबर, 2013

सं एफ 1-1/2013-विशेष सेल.—श्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती को समुचित रूप से मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार एक राष्ट्रीय समिति का एतद्वारा गठन किया गया है :—

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | डॉ. मनमोहन सिंह
भारत के माननीय प्रधानमंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती सोनिया गांधी
संसद सदस्य एवं अध्यक्ष, एनएसी | सदस्य |
| 3. | श्री ए. के. एंटनी
रक्षा मंत्री | सदस्य |
| 4. | श्री पी. चिदम्बरम
वित्त मंत्री | सदस्य |
| 5. | श्री सलमान खुर्शीद
विदेश मंत्री | सदस्य |
| 6. | श्री कपिल सिब्बल
विधि एवं न्याय मंत्री | सदस्य |
| 7. | डॉ. एम. एम. पल्लम राजू
मानव संसाधन विकास मंत्री | सदस्य |
| 8. | श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच
संस्कृति मंत्री | सदस्य |
| 9. | श्री मनीष तिवारी
सूचना एवं प्रसारण मंत्री | सदस्य |

10.	डॉ. कर्ण सिंह संसद सदस्य और अध्यक्ष, आईसीसीआर	सदस्य
11.	श्री जनार्दन दूविवेदी संसद सदस्य	सदस्य
12.	श्री बासुदेव चटर्जी अध्यक्ष, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद	सदस्य
13.	श्री सुमन दुबे, सचिव, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड	सदस्य
14.	प्रो. ए. के. सिंह कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	सदस्य
15.	प्रो. माधवन पलाट संपादक, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली	सदस्य
16.	प्रो. ताप्ती गुहा ठाकुरता सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र, कोलकाता	सदस्य
17.	प्रो. पुलापरे बालाकृष्णन विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम, केरल	सदस्य
18.	प्रोफेसर रामचंद्र गुहा लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यू.के.	सदस्य
19.	डॉ. (सुश्री) सईदा हमीद, सदस्य (शिक्षा) योजना आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
20.	प्रोफेसर सब्यसाची भट्टाचार्य पूर्व-कुलपति, विश्व भारती एवं पूर्व अध्यक्ष, आईसीएचआर	सदस्य
21.	श्री गोपालकृष्ण गांधी पूर्व - राज्यपाल, पश्चिम बंगाल एवं अध्यक्ष, कलाक्षेत्र, चेन्नई	सदस्य
22.	प्रो. आंद्रे बेते दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय	सदस्य
23.	प्रो. सुमित सरकार पूर्व प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय	सदस्य
24.	डॉ. चंद्रशेखर दास गुप्ता ऊर्जा और संसाधन संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
25.	प्रो. नासिर तैयबजी जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट के पूर्व अध्येता और वरिष्ठ अध्येता, एनएमएमएल	सदस्य
26.	श्री मणि शंकर अय्यर संसद सदस्य	सदस्य
27.	श्री महेश रंगराजन निदेशक, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय	सदस्य
28.	महानिदेशक भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार	सदस्य (पदेन)

29. श्री रवीन्द्र सिंह
सचिव, संस्कृति मंत्रालय

सदस्य - सचिव

2. राष्ट्रीय समिति के अधिदेश निम्नानुसार होंगे :—

- i. श्री जवाहर लाल नेहरू की 125वीं जयंती के समुचित स्मरणोत्सव के लिए नीतियों पर विचार करना और दिशा-निर्देश निर्धारित करना; तथा
- ii. स्मरणोत्सव से संबंधित गतिविधियों के लिए समय-सीमा के बारे में निर्णय लेना।
समिति की सिफारिशों पर विद्यमान नियमों, अनुदेशों और कार्य प्रणालियों के अध्यधीन कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. राष्ट्रीय समिति का कार्यकाल स्मरणोत्सव अवधि के साथ-साथ समाप्त हो जाएगा।

प्रमोद जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2013

No. F. 1-1/2013-Spl. Cell.—To celebrate the 125th Birth Anniversary of Shri Jawaharlal Nehru in a befitting manner, a National Committee is hereby constituted by the Government of India as under :—

1.	Dr. Manmohan Singh Hon'ble Prime Minister of India	Chairman
2.	Smt. Sonia Gandhi Member of Parliament & Chairman, NAC	Member
3.	Shri A.K. Antony Minister for Defence	Member
4.	Shri P. Chidambaram Minister of Finance	Member
5.	Shri Salman Khurshid Minister for External Affairs	Member
6.	Shri Kapil Sibal Minister for Law & Justice	Member
7.	Dr. M. M. Pallam Raju Minister for Human Resource Development	Member
8.	Smt. Chandresh Kumari Katoch Minister of Culture	Member
9.	Shri Manish Tiwari Minister for I&B	Member
10.	Dr. Karan Singh Member of Parliament and President ICCR	Member
11.	Shri Janardan Dwivedi Member of Parliament	Member
12.	Shri Basudev Chatterji Chairman, Indian Council of Historical Research	Member
13.	Shri Suman Dubey, Secretary, Jawaharlal Nehru Memorial Fund	Member
14.	Prof. A. K. Singh Vice Chancellor, Allahabad University.	Member

15.	Prof. Madhavan Palat Editor, Selected Works of Jawaharlal Nehru, Jawaharlal Nehru Memorial Trust, New Delhi.	Member
16.	Prof. Tapati Guha Thakurta Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata.	Member
17.	Prof. Pulapre Balakrishnan Centre for Development Studies, Thiruvanthapuram, Kerala.	Member
18.	Prof. Ramachandra Guha London School of Economics and Political Science, U.K.	Member
19.	Dr. (Ms.) Syeda Hameed, Member (Education) Planning Commission, New Delhi.	Member
20.	Prof. Sabyasachi Bhattacharya Ex – VC, Viswa Bharati & Ex Chairman, ICHR	Member
21.	Shri Gopalkrishna Gandhi Ex – Governor, WB & Chairman, Kalakshetra, Chennai.	Member
22.	Prof. Andre Beitelie Delhi School of Economics, University of Delhi.	Member
23.	Prof. Sumit Sarkar Former Professor, University of Delhi.	Member
24.	Dr. Chandrasekhar Dasgupta The Energy and Resources Institute, New Delhi.	Member
25.	Prof. Nasir Tyabji Former Fellow of the Jawaharlal Nehru Trust and Senior Fellow, NMML	Member
26.	Shri Mani Shankar Aiyar Member of Parliament	Member
27.	Shri Mahesh Rangarajan Director, Nehru Memorial Museum & Library	Member
28.	Director General National Archives of India	Member (Ex-officio)
29.	Shri Ravindra Singh Secretary, Ministry of Culture	Member-Secretary

2. The mandate of the National Committee will be as under:-

- (i) To consider policies and lay down guidelines for the appropriate commemoration of the 125th Birth Anniversary of Shri Jawaharlal Nehru; and
- (ii) To decide on the time frame for the Commemoration-related activities.

The recommendations of the Committee will be considered by the Government for implementation, subject to extant rules, instructions and practices.

3. The tenure of the National Committee will be co-terminus with the Commemoration period.

PRAMOD JAIN, Jt. Secy.